



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 6—अगस्त 12, 2005 (श्रावण 15, 1927)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 6—AUGUST 12, 2005 (SRAVANA 15, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में सजा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची	
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	855
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	735
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1309
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राथमिक पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए	
सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राथमिक पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	913
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	371
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2049
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	213
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

\* आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

(855)

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	855	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	735	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	7	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	913
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	1309	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	371
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	—
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	2049
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	213
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*		

\* Folios Not Received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2005

शुद्धि-पत्र

सं. 105-प्रेज/2005--भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड I में दिनांक 16 जून, 1990 को प्रकाशित सेना मेडल प्रदान किये जाने के संबंध में इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 50-प्रेज/90, दिनांक 26 जनवरी, 1990 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

क्रम संख्या 115 पर

“4457852 लांस नायक दर्शन सिंह, 13 सिख लाइट इन्फैन्ट्री (मरणोपरांत)” :--के स्थान पर

“4457052 लांस नायक दर्शन सिंह, 13 सिख लाइट इन्फैन्ट्री (मरणोपरांत)” :--पढ़ा जाए।

बरूण मित्रा  
निदेशक

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2005

सं. ए-11019/1/2000-प्रशा. III (वि. का.)--आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 255 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, आयकर अपील अधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित तारीखों से प्राधिकृत करते हैं :--

क्रम सं. सदस्य का नाम	जिस तारीख से एसएमसी की शक्तियां प्रदान की गईं
सर्वश्री	
1. के. एस. एस. प्रसाद त्रिवेदी न्यायिक सदस्य	10-01-2005
2. प्रमोद एम. जगताप लेखा सदस्य	16-03-2005
	वी. एम. रत्नम अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2005

सं. एफ. 9-6/97-यू.3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 2-6-2000 को अपनी अधिसूचना सं. 9-6/97-यू-3 के माध्यम से धर्म सिंह देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय) नादियाड को सम विश्वविद्यालय घोषित किया। गुजरात राज्य विधानमंडल के दिनांक 23 मार्च, 2005 को 2005 के गुजरात अधिनियम सं. 16 के माध्यम से गुजरात सरकार ने धर्म सिंह देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय) नादियाड को धर्म सिंह देसाई विश्वविद्यालय के नाम से राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है और इसे राज्य सरकार की दिनांक 11 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना सं. जीएच/एसएच/3/एपीबी-2003-1610-एस के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

2. तदनुसार भारत सरकार धर्म सिंह देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय) नादियाड को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा देने की तारीख से उसके सम विश्वविद्यालय की स्तर को उद्द कती है।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2005

संकल्प

सं. ई आर बी-1/2004/23/25--रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में मुहैया कराई गई यात्री सुविधाओं की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यात्री सुविधा समिति को पुनः गठित करने का विनिश्चय किया है।

2. यह समिति श्री मो. इल्यास हुसैन, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की अध्यक्षता में कार्य करेगी।

2.1 श्री उदय कांत चौधरी, एडवोकेट, उच्च न्यायालय, पटना समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :—

- (क) सामान्य स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी स्थिति
- (ख) पीने के पानी की व्यवस्था
- (ग) यात्रियों को सूचना पहुंचाने के लिए मुहैया करवाई गई सुविधाएं जैसे पूछताछ कार्यालय, जन श्रवण प्रणाली, संकेतक बोर्ड इत्यादि का अनुरक्षण
- (घ) बिजली, पैसे एवं अन्य बिजली सुविधाओं की व्यवस्था करना
- (ङ) जन सुविधाओं जैसे सार्वजनिक शौचालय, स्नानागृह, विश्रामकक्ष एवं प्रतीक्षालयों की व्यवस्था एवं उनका अनुरक्षण
- (च) प्लेटफार्मों पर बैंच, व्हील चेयर, स्टैंडर, सामान उठाने वाली ट्रालियों इत्यादि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था
- (छ) सवारी डिब्बों और स्टेशन परिसरों में आरक्षण एवं बुकिंग सुविधाओं की व्यवस्था
- (ज) सवारी डिब्बों और स्टेशन परिसरों में यात्रियों की सुरक्षा

(झ) रेलवे राजस्व में हानियां, और

(ञ) यात्रियों के साथ शिष्टाचार सुनिश्चित करना

4. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक होगा।

5. रेलवे बोर्ड का यातायात वाणिज्य निदेशालय, नोडल निदेशालय होगा जो समिति से संपर्क बनाए रखेगा तथा समिति की विभिन्न सिफारिशों को समय से कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई करेगा।

6. उप निदेशक (रेल दावा अधिकरण) रेलवे बोर्ड समिति के सचिव होंगे।

एम.के. अग्रवाल

सचिव, रेलवे बोर्ड

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. एम. नारायणन

संयुक्त सचिव (राज.), रेलवे बोर्ड

#### PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th July 2005

#### CORRIGENDUM

No. 105-Pres/2005.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 50-Pres/90 dated 26 January, 1990 published in Part-I Section-I of the Gazette of India dated 16 June, 1990 relating to the award of Sena Medal :—

AT-SERIAL NO. 115

For :—4457852 Lance Naik Darshan Singh, 13 Sikh Light Infantry (Posthumous)

Read :—4457052 Lance Naik Darshan Singh, 13 Sikh Light Infantry (Posthumous)

BARUN MITRA  
Director

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 15th March 2005

No. A-11019/1/2000-Admn.III(LA).—In pursuance of sub section (3) of Section 255 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorizes the following Members of the Income Tax Appellate Tribunal

for the purpose of the said sub-section with effect from the dates mentioned against each of them :—

Sl. No.	Name of the Member	Date on which SMC powers conferred
1.	S/Shri K.S.S. Prasad Rao Judicial Member	10.01.2005
2.	Pramod M. Jagtap Accountant Member	16.03.2005

V. M. RATHNAM  
Under Secretary

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 18th July 2005

No. F. 9-5/97-U-3.—The Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), granted Deemed to be University status to the Dharam Singh Desai Institute of Technology (Deemed University), Nadiad vide its notification No. 9-6/97-U-3 dated 2.06.2000. The Dharam Singh Desai Institute of Technology (Deemed University), Nadiad has been converted by the Government of Gujarat into a State University with its name as Dharam Singh Desai University through Gujarat Act No. 16 of 2005 dated 23rd March, 2005 of Gujarat State Legislature and notified vide State Government notification No. GH/SH/3/APB-2003-1610-S dated 11th April, 2005.

2. The Government of India, accordingly, revokes the status of Deemed to be University conferred on Dharam Singh Desai Institute of Technology (Deemed University), Nadiad with effect from the date of its conversion into a State University.

SUNIL KUMAR  
Joint Secretary

## MINISTRY OF RAILWAYS

### (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 18th July 2005

### RESOLUTION

No. ERB-I/2004/23/25.—The Ministry of Railways (Railway Board) have decided to reconstitute Passenger Amenities Committee at the national level to check the passenger amenities provided at railway stations and on trains.

2. The Committee will function under the Chairmanship of Shri Md. Ilyas Hussain, Ex-Minister, Government of Bihar.

2.1 Shri Uday Kant Chaudhary, Advocate, High Court of Patna will function as a Member to the Committee.

3. The Terms of reference of the Committee are as under :—

- (a) General cleanliness and environmental condition.
- (b) Drinking water arrangements.
- (c) Facilities provided for dissemination of information to the passengers, like enquiry offices, public address system, indicator boards etc.
- (d) Provision of lights, fans and other electrical amenities.

- (e) Provision and maintenance of public conveniences like public lavatories, bathrooms, retiring rooms and waiting halls.
- (f) Provision of such conveniences as benches on platforms, wheel chairs, stretchers, luggage trolleys, etc.
- (g) Reservation and booking in carriages and at station premises.
- (h) Security of passengers in carriages and at station premises.
- (i) Losses in railway revenues, and
- (j) Ensuring courtesy to passengers.

4. The tenure of the Committee will be for a period of two years or till further orders.

5. The Traffic Commercial Directorate, Railway Board will be the nodal Directorate interacting with the Committee and processing its various recommendations for timely implementation.

6. Deputy Director (RCT), Railway Board will be the Secretary of the Committee.

M. K. AGARWAL  
Secretary, Railway Board

### ORDER

Ordered that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. M. NARAYANAN  
Joint Secretary (G)  
Railway Board